

## वायनाड में 4 इकोटूरज़िम (पर्यावरण पर्यटन) केंद्र बंद

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के नरिदेश के अनुसार, वायनाड ज़िले में दक्षिण वायनाड वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले चार प्रमुख इकोटूरज़िम (पर्यावरण पर्यटन) केंद्रों में पर्यटकों का प्रवेश बंद कर दिया गया है।

### प्रमुख बंदि

- अदालत ने 21 मार्च को एक पर्यावरण संगठन 'वायनाड प्रकृतिसंरक्षा समिति' द्वारा दायर याचिका पर वन प्रभाग में सभी इकोटूरज़िम गतिविधियों पर अंतरिम रोक जारी की।
- अदालत के नरिदेशानुसार बंद किये गए प्रमुख इकोटूरज़िम पर्यटन केंद्र नमिनलिखित हैं:
  1. मेप्पदी वन श्रेणी के अंतर्गत सोचीपारा जलप्रपात
  2. चेथलायथ वन रेंज के अंतर्गत कबानी पर कुरुवा द्वीप
  3. मेप्पदी वन रेंज के अंतर्गत चेम्बरा शखिर
  4. कालपेट्टा वन रेंज के तहत पदनिहारेथरा (Padinharethara) में मीनमुट्टी जलप्रपात
- सोचीपारा जलप्रपात और कुरुवा द्वीपों में पर्यटकों के प्रवेश को हाल ही में बंद किया गया, जबकि चेम्बरा शखिर और मीनमुट्टी जलप्रपात को जनवरी 2019 के मध्य से ही जंगल की आग के जोखिम के कारण बंद किया गया था।

### केरल में पर्यटन

- केरल प्रांत पर्यटन के लिये बहुत लोकप्रिय स्थान है, इसीलिये इसे 'God's Own Country' अर्थात् 'ईश्वर का अपना घर' नाम से पुकारा जाता है।
- यहाँ अनेक प्रकार के दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें प्रमुख हैं - पर्वतीय तराई क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र, वन क्षेत्र, तीरथाटन केंद्र आदि। इन स्थानों पर देश-वदेश से असंख्य पर्यटक भ्रमणार्थ आते हैं।
- पर्वतीय क्षेत्र, समुद्री तट, वन्य पशु केंद्र, कोल्लम, झीलें, जलप्रपात, पर्वत शखिर आदि पर्यटकों के लिये विशेष आकर्षण के केंद्र हैं।
- भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद) का पर्यटन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान है।
- राज्य की अर्थव्यवस्था में भी पर्यटन क्षेत्र का प्रमुख योगदान है।

### पर्यटन क्षेत्र में विकास

- पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिये केरल राज्य सरकार का पर्यटन विभाग अत्यधिक सक्रिय है।
- विभाग द्वारा पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिये प्रचार-प्रसार, बुनियादी सुविधाओं का विकास आदि कार्य किये जाते हैं।
- राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिये आवश्यक प्राकृतिक संतुलन तथा सांस्कृतिक वरिषत को बनाए रखते हुए 'दायित्वपूर्ण पर्यटन विकास' की नीति अपनाई गई है।

### उपलब्धियाँ

- पर्यटन क्षेत्र में केरल की उपलब्धियाँ काफी प्रशंसनीय रही हैं।
- इस क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास के कारण राज्य को अनेक राष्ट्रीय - अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।
- पछिले दस वर्षों में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक पर्यटकों के आगमन तथा अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्ति और पर्यटन विकास में केरल का स्थान सर्वोपरि रहा।

### इकोटूरज़िम

- पर्यावरण पर्यटन का अर्थ है वातावरण की दृष्टि से धारणीय पर्यटन जसिमें प्रमुख रूप से उन प्राकृतिक क्षेत्रों का अनुभव प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो पर्यावरणीय और सांस्कृतिक समझ-बूझ, मूल्यांकन और संरक्षण को बढ़ावा देते हैं।
- पर्यावरण पर्यटन का आशय यह है कि पर्यटन का प्रबंधन तथा प्रकृति का संरक्षण इस तरीके से किया जाए ताकि पर्यटन व पारिस्थितिकी के साथ-साथ रोजगार की भी पूर्ति होती रहे।

## स्रोत- द हट्टू

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/4-ecotourism-centres-closed-in-wayanad>

